

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चूरु

क्रमांक :- एफ 5 / लेखा / कम्प्यूटर क्रय / 2022-23 / 350

दिनांक 20/12.2022

निविदा सूचना सं.01

डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं डॉक्यूमेन्ट स्कैनर उपापन हेतु खुली निविदा

कार्यालय सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चूरु के उपयोग हेतु प्रिन्टर, डेस्कटॉप कम्प्यूटर सेट एवं डॉक्यूमेन्ट स्कैनर क्रय करने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सीज/विनिर्माताओं/डीलर्स/ अधिकृत विक्रेताओं से द्वि-प्रक्रम पद्धति के अन्तर्गत दो मुहरबन्द लिफाफे में (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव पृथक-पृथक) निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उपापन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण एवं शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रय की जाने वाली सामग्री एवं मात्रा	अनुमानित राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रु.)	बोली प्रतिभूति राशि (रु.)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय
डेस्कटॉप कम्प्यूटर -2	2,45,000 / -	200 / -	4900 / -	04, जनवरी 2023 दोपहर 12:00 बजे तक	04, जनवरी 2023 दोपहर 02:00 बजे तक	04, जनवरी 2023 अपरान्ह 03:00 बजे।
प्रिन्टर - 1						
डॉक्यूमेन्ट स्कैनर -1						

निविदा का विस्तृत विवरण शर्तें एवं क्रय की जाने वाली सामग्री के स्पेशिफिकेशन तथा निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कार्यालय कमरा संख्या 03 में कौशियर के यहाँ राशि रु.200/- रुपये जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय वेब साइट www.sipf.rajasthan.gov.in अथवा राज्यलोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.rajasthan.gov.in>) से देखा / डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चूरु के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में ही स्वीकार की जावेगी। तकनीकी रूप से पात्र निविदाओं के वित्तीय प्रस्ताव उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 04/01/2023 को अपरान्ह 03.00 बजे उपापन समिति द्वारा खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चूरु को होगा।

सहायक निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

चूरु

क्रमांक :- एफ 5 / लेखा / कम्प्यूटर क्रय / 2022-23 / 351-354

दिनांक 20/12.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभाग बीकानेर।
3. श्री राकेश कुमार बबेरवाल, प्रोग्रामर कार्यालय हाजा, चूरु को प्रेषित कर लेख है कि वेबसाइट (<http://sppp.raj.nic.in>) पर अपलोड करेंगे।
4. श्रीमान जन सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी चूरु के माध्यम से एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में डीपीआर दरों पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशनार्थ।

सहायक निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

चूरु

राजस्थान सरकार
सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग चूरु

डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं डॉक्यूमेन्ट स्कैनर उपापन हेतु खुली निविदा

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं डॉक्यूमेन्ट स्कैनर इत्यादि की जिन राजकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था में आपूर्ति की है। उसमें विगत तीन वर्षों में आपूर्ति किये गये सामान के सब स्टैण्डर्ड अथवा सेवा संतोषजनक नहीं होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/अभिकरण/निगम आदि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में समान आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद लम्बित नहीं है एवं न ही किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामानों के लिए निविदा प्रस्तुत की है उनका मैं/हम बोनाफाइड निर्माता/प्राधिकृत डीलर/अधिकृत विक्रेता है। निविदत सामग्री स्थानीय उत्पाद uncertified assembled article नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति (बिड) को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

नोट:-1.संबंधित पर राईट का निशान लगावे ।

2.ऑथोराईजेशन की प्रति संलग्न करे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन नम्बर (निवास)-
(कार्यालय)-